M.: 9818299441-2



Regd. Office: 4883-84, Kucha Ustad Dag, Chandni Chowk, Delhi-110006 CIN: L74899DL1985PLC020194

Dated: 05.11.2022

To,
DEPARTMENT OF CORPORATE SERVICES
BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED
PhirozeJeejeebhoy Towers

25th Floor, Dalal Street Mumbai - 400001.

SCRIP CODE: 538863

KIND ATTN: MANAGER - LISTING DEPARTMENT

SUB: SUBMISSION OF NEWSPAPER CUTTINGS OF FINANCIAL RESULTS PUBLISHED IN THE NEWSPAPER.

Dear Sir

Please find enclosed the newspaper cutting dated 05th November, 2022 in which unaudited financial results of the Company for the quarter ended on 30th September, 2022 is published.

Please take the above information in your records.

For and on behalf of

SRI AMARNATH FINANCE LIMITED

Peria Epen

RAKESH KAPOOR (MANAGING DIRECTOR) (DIN:00216016)

Encl :a/a

FINANCIAL EXPRESS

The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 04, 2022.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and on company's website www.sriamarnathfinance.in The Statutory Auditors of the Company has carried Limited Review of the Results pursuant to the regulation 33 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Rakesh Kapoor Managing Director DIN:00216016

For Sri Amarnath Finance Limited

Date: 04.11.2022 Place: Delhi

AXIS BANK LTD. POSSESSION NOTICE ll Asset Centre: 1st Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension Lucknow. UP 226010.

Registered Office: "Trishui"- 3rd Floor, Opp. Samartheshwar Temple, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006

Where as the undersigned being the Authorized Officer of AXIS BANK LTD, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise or power conferred under Section 13 (12) read with Rule-9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand notice under section 13(2) of the said Act. The borrower/s mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower's mentioned here in above in particular and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers confer on him under section 13(4) of the said Act read with the rule8 of the Said Rules. The borrower's mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to be deal with the said property and any dealings with the said property will be subject to the mortgage of AXIS BANK LTD. for an amount together with further interest incidental expenses, costs, charges, etc. on the amount mentioned against each amount herein below. The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) attention is invited to provisions of sub-section(8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

		A1
Name of the Borrowers/	Description of the	Amt. Due as per Demand notice
Guarantors/Address	Mortgaged Properties	Date Demand notice
		Possession Date
Nand Kishor Sharma (Borrower)	Land/property Covered Area 310.67 Sq. mt,	,,
S/o Sh. Girraj R/o H.no 210 Falain	Mohallaghotiya Khasra No. 1433, Mauza-	1101 20,000100
Chhata Falain Phalain Mathura Near	Falen, Tehsil- Chata, District- Mathura, 281403,	
Primary School Uttar Pradesh 281403,	Which Is In The Name Of Nand Kishor	1111010010
Girraj (Co-Borrower) S/o Sh. Mohan	Sharma. Bounded as: East - House Of	outer expended
Shyam R/o H.no 210B Guhetiya Thok	Jagram, West - House Of Jeetram, North -	26.05.2022
Gram Falain Phalain Mathura Near	Road, South - Property Girraj Ji.	
Primary School Mathura UP- 281403	l	03.11.2022
Ruchir Bihari Sharma (Borrower) S/o	Land/property Admeasuring Area 227.61 Sq. Mt,	
Ram Lai Sharma, Hemiata Sharma	Situated at Residential House Plot No. 92 & 93,	Rs. 1,23,092.36
(Co-Borrower) W/o Ruchir Bihari	Bank Colony Bathain Gate Kosikalan (rural)	do 011 1110012022
Sharma both R/o Plot No. 92 & 93,	Near Bathash Tehsil Chatta District Mathura U.P. 281403. Note House Constructed Over Land	intorost a
Bank Colony Bathain Gate Kosikalan	Purchased By Two Sale Deeds. Boundaries	other expenses
(rural) Near Bathash Tehsil Chatta	As Per Valuation: East - Property Of Prabhu	1 7 / ING 'JIN'J'
District Mathura U.P. 281403.	Dayal, West - Property Of Krishna Dayal,	
District Matriura U.P. 201403.	North - Plot Of Sardar Ji South - Road.	03.11.2022
Date- 05.11.2022	Authorized Office	r Ayis Bank I fd
Dato- VV. II.ZVZZ	Addition26d Office	n, Adio Dank Ltd.

HELPAGE FINLEASE LIMITED

Regd. Office: S-191C, 3rd Floor, Manak Complex, School Block, Shakarpur, New Delhi-110092 CIN:L51909DL1982PLC014434 Website: www.helpagefinlease.com Ph. No.: + 91-11-22481711 | Fax No.: +91-11-22481711

Statement of unaudited standalone Financial Results for the Half Year ended September 30, 2022

(In Rs.)

	Standalone							
Particulars	Qua	Quarter Ended			Half Year Ended			
	30.09.2022	30.06.2022	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021	31.03.2022		
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
Total Income from Operations (net)	7,101,900	7,005,865	7,158,434	14,107,765	14,183,984	28,604,131		
Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)	2,018,056	1,641,925	2,338,524	3,659,981	4,795,203	8,982,334		
Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	2,018,056	1,641,925	2,338,524	3,659,981	4,795,203	8,982,334		
Net Profit / (Loss) for the period after tax	1,493,356	1,215,025	1,730,508	2,708,381	3,548,450	6,447,464		
Paid-up equity share capital (Face Value Rs. 10/- each.)	99,475,000	99,475,000	99,475,000	99,475,000	99,475,000	99,475,000		
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet	+		(4)	41,749,782.84		39,041,400.00		
Earnings Per Share (EPS) (before & after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)				0.00				
- Basic	0.15	0.12	0,17	0.27	0.36	0.65		
- Diluted	0.15	0.12	0.17	0.27	0.36	0.65		

The above is an extract of the detailed format of quarterly unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange website i.e. (www.bseindia.com) and also available on the Company's Website www.helpagefinlease.com.

The above unaudited standalone financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2022 have been reviewed by Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors at its meeting held on 04.11.2022.

Place: New Delhi Date: November 4, 2022

Sidharth Goyal Managing Director

For Helpage Finlease Limited

Creditor may also publish your photograph. Details are hereunder:-

& DL/JNK/JNKP/A00000435

Loan Accounts have been classified

as a NPA on 30-06-2022

Dated: 04-11-2022, Place: Ghaziabad

financialexp.epapr.in

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED First Floor, Mahalaxmi Metro Tower, Above Axis Bank, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201010

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI ACT) In respect of loans availed by below mentioned borrowers / guarantors through HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED, which have become NPA with below mentioned balance outstanding on dates mentioned below. We have already issued detailed Demand Notice dated as mentioned below Under Sec. 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 by Registered Post / Speed Post / Courier with acknowledge due to you which has been returned undelivered. acknowledgment not received. We have indicated our intention of taking possession of securities owned on one of you as per Sec. 13(4) of the Act in case of your facilure to pay the amount mentioned below within 60 days. In the event of your not discharging liability as set out herein above the Bank / Secured Creditor may exercise any of the right conferred vide section 13(4) of SARFAESI Act and while

publishing the possession notice / auction notice, electronically or otherwise, as required under the SARFAESI Act, the Bank / Secured

Sr. No.		Demand Notice Date Amount Outstanding	Details of Secured Assets		
1	Mr. Wasim Akram & Mrs. Hoosnara Khatoon, both at: Flat No. 102, 1st Floor, LHS Side Flat, It		Residential Property Flat No. 102, 1s Floor, having super area 1100 Sq. ft		
	Residency Colony, NRI Apartment, Sector- 106, Noida, Khasra Number - 73, Village Bhangel, Bagumpur, Gautam Budh Nagar, Urban, Noida, Uttar Pradesh, India - 201304	Amount Outstanding 3,158,243/- as on 18-08-2022 + interest + Legal Charges	102.19 sq. mtrs. Without roof rights Khasra No. 73, in village - Bhange begumpur, Pargana & Tehsil Dadr district Gautam Budh Nagar Utta		
	A/c No. HR/NCH/GURH/A000000440 / HR/NCH/GURH/A000000729 Loan Accounts have been classified as a NPA on 30-06-2021	+ Interest + Legal Charges	Pradesh, IT Residency (Colony known as NRI Apartment), Bounded as: EAST - As per site, West - As per site, North - As per site South - As per site		
2	Mr. RAHUL & Reena, both at: Som Bazar Khasra No. 183, N-2 Mukand Pur Part-2, Delhi-	Demand Notice Dated 18-10-2022	Plot on Land Area Measuring 60 sq Yards, i.e. 50.16 sq. Mtrs. Out of Khasra		
	A/c No. DL/DEL/PAND/A000000258 Loan Accounts have been classified as a NPA on 31-03-2022	Amount Outstanding 12,29,745/- as on 01-10-2022 + interest + Legal Charges	No. 117, Situated in Mouja Gram Sahbiswa Bahar Sima Nagarpalika Muradnagar, Pargana Jalalabad, Tehsi Modinagar, District Ghaziabad, Bounded as: EAST - Other Property, buja 30ft., West Other Property, Buja 30ft., North - Rasta 15ft., Buja 18ft, South - Plot of Anuradha Buja 18 ft.		
3	Praveen Kumar & Reena Rani, both at: B-66, Master Colony, Garima Garden Sahibadad, Noor	Demand Notice Dated 18-10-2022	Freehold Residential Plot No. 63, area measuring 50 sq. yards, i.e. 41.80 mtrs		
	Hasan Public School, Metro Ghaziabad - 201005	Amount Outstanding 17,47,339/-	Out of khasra no. 200 min, situated a master enclave village pasonda, pargana lona, Tehsil & district Ghaziabad		
	A/c No. DL/JNK/JNKP/A000000129	as on 03-10-2022	Bounded as: EAST - Rasta 15ft., West		

The above mentioned Borrowers / Guarantors are advised (1) To collect the original notice from the undersigned for more and complete details and (2) To pay the balance outstanding amount interest and costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action under the SARFAESI Act.

Authorised Officer, HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

+ interest + Legal Charges Other Plot, North - Plot No. 62, South - Plot

No. 64

<u> Possession notice (For immovable Property) kule 6-(1)</u>

Finance Ltd.) (IIFL-HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Ac 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower/Co-Borrowers mentioned here below to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken pos session of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Rules The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon."The borrower

attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the "IIFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets						
Name of the Borrower(s) /Co-Borrower(s)	Asset (Immovable Property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Demand	Date of Posses sion		
	All that piece and parcel of Property Bearing—Plot No-B-136, 1St Floor Unit No-01, Front Lhs Area Ad measuring 75.25 Sq.Mtrs., in K H No-463, Khanpur, Delhi, 110062, Delhi, India.		17-Aug - 2022	02-Nov- 2022		
Mr. Naveen Kumar Mrs. Devki Mr. Rajender Kumar (Prospect No 857001)	All that piece and parcel of : Plot No. 282, Area Measuring 23 Sq. Yrds, Out Of Khasra No. 742 Situated In The Old Lal Dora 1908-09, Situated In The Area O'Village Mohammadpur, Munirka, Delhi -110067.	Nineteen Lakh Twenty Five	19-Aug- 2022	02-Nov- 2022		
	ntact to Authorised Officer at Branch Office:Plot No. 30/30 oom, Moti Nagar, New Delhi or Corporate Office: Plot No.9 2		jaon, Harya	ina.		

ODISHA MINING CORPORATION LIMITED

OMC House, Bhubaneswar-751001, Odisha CIN: U13100OR1956SGC000313, www.omcltd.in



REQUEST FOR PROPOSAL FOR SELECTION OF MINE OPERATOR FOR ACDE QUARRY OF SUKRANGI CHROMITE MINE IN THE DISTRICT OF JAJPUR, ODISHA (RfP No. 178/OMC/P&T/2022 dated 04.11.2022)

Odisha Mining Corporation Limited (OMC) invites bids from experienced Mine Operators for hiring of plant and machineries for mechanized mining involving excavation of overburden and chrome ore in all kinds of soil and rock upto a depth of approximately 100 Meters from the average natural surface level by deploying HEMM, Drilling & Blasting wherever necessary, dewatering (by continuous pumping out on an average around 120 Kilolitres of water per day throughout the year except during the monsoon months when the pumping requirement will be more), transportation of overburden, sub-grade Chrome ore and Chrome ore to respective vards.

Peak Rated Capacity: 19,90,000 Cum.(+ 10%)

Period of Contract: 05 Years.

Last Date of Online Submission of Bid: Up to 04:00PM on 02.12.2022.

Last Date of Physical Submission of Original Documents related to Bid: Up to 04:00PM on 03.12.2022. Bid Document Cost: INR 1,18,000/- (Rupees One Lakh Eighteen Thousand) only including GST © 18% The executive summary of the Bidding Process as well as the Bidding Documents have been uploaded on the portal of MSTC Ltd. (www.mstcecommerce.com/eprochome/omc) and on the website of Odisha Mining Corporation Limited (www.omcltd.in). The Documents can be downloaded from the above sites from 05.11.2022.

Any further communications, corrigendum/ addendum, etc. will be uploaded on the website of MSTC and OMC. OMC reserves the right to reject any or all bids/ proposals without assigning any reasons whatsoever. Nodal officer for this bidding process: Rajesh Mishra, General Manager (Mining) OMC. Email: rajeshmishra@odishamining.in Phone: +91 674 2377437, +91 8763545981

Contact Person: Jnana Ranjan Jena, Sr. Manager (Mining), OMC, Phone: +91- 9437554356 Mine Office Contact Number: 9937297144/9437224265

Sd/- dtd. 04.11.2022 General Manager (Mining), OMC OIPR-30005/11/00157/2223

Public Notice For E-Auction For Sale Of Immovable Properties sale of immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL Corporate Office at Plot No.98,Udyog Vihar, Phase-IV,Gurgaon-122015.(Haryana) and **Branch Office at:- Plot No. 30/30E, Upper Ground**

Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi under the Securitisation and Reconstruction Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002(hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospec nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.bankeauctions.com. Borrower(s) / Demand Notice | Description of the | Co-Borrower(s) | Date and Amount | Immovable property/ Date of Physical Reserve Date of Inspection

/ Guarantor(s)	Date and Amount	Secured Asset	Possession	Price	or property
1.Mr. Biram Dutt Bhati 2.Mrs.Lazza Singh	26-Nov-2021 Rs.21,40,883/- (Rupees Twenty One Lakh Forty Thousand Eight	All that part and parcel of the property bearing K h e w a t / K h a t a No.272/485, Khasra No. 147 1-12 , Area	Total Outstanding As On Date 21-Oct - 2022	Rs. 51,69,800/- (Rupees Fifty One Lakh Sixty Nine Thousand Eight Hundred Only)	02-Dec-2022 1100 hrs -1400 hrs Contact:- Mr. Varun Grover at 8468011313
(Prospect No	Hundred Eighty Three Only) Bid Increase Amount	Admeasuring 430 Sq.Yds., Situated At Village Kaurali Tehsil Ballabhgarh Distt	(Rupees Twenty	Earnest Money Deposit (EMD) Rs.5,16,980/-	EMD Last Date 05-Dec-2022 till 5 pm.
855293)	Rs.40,000/- (Rupees Forty Thousand Only)	Faridabad Haryana, India.		(Rupees Five Lakh Sixteen Thousand Nine Hundred Eighty Only)	Date/ Time of E-Auction 07-Dec-2022 1100 hrs-1300 hrs.

flode of Payment:- All payment shall be made by demand draft in favour of "IIFL Home Finance Limited" payable at Gurugram or through RTGS/NEFT he accounts details are as follows: a) Name of the Account:- IIFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank:- Standard Chartered Bank, c) Account lo:-9902879 followed by Loan Number, d) IFSC Code:-SCBL0036001 e) Bank Address: Stándard Chartered Bank, 90 M.G. Road, Fort, Mumbai-400001

TERMS AND CONDITIONS:-

- For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.bankeauctions.com, we in advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office. . The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the las
- 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 750 of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the prescribed mode of paymen
- The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property
- . Bidders are advised to go through the website https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings. For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID: support@bankeauctions.com, Support Helpline Numbers:@7291981124/25/26.and any property related query Mr. Jitendra Gupta @ 9999682823, Email:-jitendra.gupta1@iifl.com,
- Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physical possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances. . Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law.
- 9. In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale. 10. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of
- any dispute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final.

STATUTARY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002 The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost.

Place:-Faridabad, Date: 05-Nov-2022 Sd/- Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited

Reserve Price

Including 1% Income Tax on

Reserve Price of Property

DHANVANTRI JEEVAN REKHA LTD e-mail: dhanvantrihospital@gmail.com; website: www.dirl.org.in NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is schedule to be held on Saturday, the 12" Day of November, 2022 at 12:30 p.m. at registered office: 1, Saket, Meerut inter alia to consider and approve unaudited Financial Results of the Company for the guarter ended 30" September 2022 pursuant to Regulation 33 of SEBI (LODR), 2015. The said notice may be accessed on the Company's website at http://www.djrl.org.in and may also be accessed on the Stock Exchange website at http://www.bseindia.com.

For Dhanvantri Jeevan Rekha Limited Place: Meerut Shalini Sharma (Managing Director) Date: 04.11.2022

A F ENTERPRISES LIMITED CIN: L18100DL1983PLC016354

Reg. Office: DSM-334, DLF Towers Shivaji Marg, Delhi Central Delhi DL 110015 Corporate office cum Factory: Plot No. 8, Sector-5, Mathura Road, Faridabad. Haryana, 121006

Email:info.afenterprises@gmail.com, Tel: +91-7428399452 Website: http://afenterprisesttd.in/

NOTICE FOR EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO ONFERENCING(VC) OTHER AUDIO VISUAL MEANS (DAVM) AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

The Extra-Ordinary General Meeting ('EGM') of the members of AF Enterprises Limited ('the Company') is scheduled to be held on Monday, 28th November, 2022 at 02:00 PM through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") Facility, to transact the Special Businesses, as set out in the Notice of the EGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8" April 2020, 13" April 2020 and 5" May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12" May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a

explanatory statement has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of the EGM to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. i. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on

In terms of MCA Circular/s and SEBI Circular, the Notice of the EGM including

- the cut-off date i.e. 21st November 2022 may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of the EGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of National Securities Depository Limited ("NSDL"). All the members are informed that: The business as set out in the Notice of the EGM will be transacted through remote e-Voting or e-Voting system at the AGM;
- ii. The remote e-Voting shall commence on Friday, 25th November 2022 at 9:00 am iil. The remote e-Voting shall end on Sunday, 27th November 2022 at 5:00 pm IST;
- iv. The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the EGM, is 21st November 2022; v. Remote e-Voting module shall be disabled after 5:00 pm IST on 27th November
- vi. Any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the EGM by email and holding shares as on the cut-off date ie. 21" November 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@ nsdl.co.in or info.afenterprises@gmail.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e- Voting then existing user ID and password

can be used for casting vote; Members may note that:

- a) the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesai date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. b) the facility for e-Voting shall also be made available during the EGM, and
- those members present in the EGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-Voting and otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-Voting system at the EGM;
- may participate in the EGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the EGM; and d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the

cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting,

c) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the EGM

- participating in the EGM through VC/OAVM Facility and e-Voting during the EGM; . The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and members who have not registered their email address is provided in the Notice of the EGM; ix. The Notice of the EGM is available on the website of the Company at www.afenterprisesltd.in and the website of BSE Limited at
- www.bseindia.com. The Notice of the EGM is also available on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com ; and x. Those Members holding shares in physical form, whose email addresses are
- not registered with the Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self attested scanned copy of the PAN Card; and self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving Licence, Bank Statement, Passport) supporting the registered address of the Member, by email to the Company's email address: info.afenterprises@gmail.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant xi. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs)
- for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4" Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdLco.in or SoniS@nsdLco.in or at telephone nos.:- +91 22 24994545 +91 22 24994559, who will also address the grievances connected with voting by electronic means. Members may also write to the Company's email address
- info.afenterprises@gmail.com . The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from 21" November 2022 to 28" November 2022 (both days inclusive) For A F ENTERPRISES LIMITED

Date: 04.11.2022 Payal Sachdeva Place: New Delhi (Company Secretary) RO: NHPC Complex, Sec. 33, 1st & 2nd Floor, Faridabad-121003,

Name of Branch

and Details of

INDIAN OVERSEAS BANK

Date of Demand Notice and

Dues (with Further Interest

Name of Borrower

E-AUCTION SALE NOTICE TO GENERAL PUBLIC

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE AND MOVABLE PROPERTIES

Description of Property alongwith Name of Mortgagor (Owner of the Property)

Type of Possession (Symbolic)

Telephone: 0129-2259544-50

Date & Time of Auction: 07.12.2022 from 11:00 AM to 01:00 PM Under Proviso to Rule 8(6) and Rule 6(2) of Security Interest (Enforcement) Rules E-Auction Sale for Sale of Immovable and Movable Assests under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and

Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso To Rule 8(6) and Rule 6(2) of the security interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the Public in general and in particular to the Borrower(s) and Gurantor (s) that the below described immovable Property Movable Prope Secured Creditor, the "SYMBOLIC POSSESSION" of which has taken by the Authorised Officer of the Indian Overseas Bank (Secured Officer), will be sold on "As is where is", "As is What is" and "Whatever there is" basis on 07.12.2022 as per details mentioned hereunder.

NO.		and cost till realization)	Above Rs 50.00 Lakhs)	Type of Possession (Symbolic)	Contact Person	
			EMD Amount			
	F135 - 1999 (1997 - 1997 - 19		Incremental Bid Amount			
1.			Rs. 17,10,000/-	Residential Property bearing Khasra No.489, Mauja-Nagal within Dayanand Nagar,	Nagaura Branch	
	Sharma and Mr.	with further interest at contractual rates	Rs. 1,71,100/	Tehsil Maat, District Mathura -281202 measuring 83.61 sq mtr(100 sq yds) owned by	Mr. Deepak Kumar	
	Saurabh Bhardwaj	& rests, charges etc till date of payment	Rs. 10,000/-	Mr. Krishna Kumar Sharma S/o Sh. Jagdish Pd Sharma	Contact No.8121474074	
2.	Mr. Suresh S/o	15.06.2022 Rs.1,96,131.92	Rs.6,32,000/-	Residential Building on Plot No. 4, Block No. 12, admeasuring 100 Sq. Yards i.e. 100/240		
	Ratana	with further interest at contractual rates	Rs.63,200/-	Share of Plot measuring 240 Sq. Yards situated at HUDA Colony, New Bholi revenue	Kabri Branch	
		& rests, charges etc till date of payment	Rs. 10,000/-	estate Sithana, Tehsil- Madlauda, District: Panipat- 132113, Haryana. Measuring 100.00 Sq. yards. The property is In the name of Mrs. Karam Devi.		
3.	Mr. Pradeep Sharma	07.02.2022 Rs.11,47,169.70	Rs.27,84,000/-	Residential building with open land at Village Shajanpur Tehsil - Gharounda, District:	Mr. Amit Kumar Contact No.8347254683	
	at a second	with further interest at contractual rates	Rs. 2,78,400/-	Karnal, Haryana – 132001. Measuring 508.61 sq. yds. The property is in the name of Mr. Pawan Kumar S/o Shri Ranbir Singh.	JUNIOU 110.00 11 20 1000	
	CONTRACTOR OF	& rests, charges etc till date of payment	Rs. 10,000/-			
4.	Mr. Shri Ram	19.04.2022 Rs.11,73,058.35 with further interest at contractual rates & rests, charges etc till date of payment	Rs.33,61,500/-	Residential Land & Building situated at Plot No.14, Block No.19, HUDA Colony, New	Risalu Branch	
			Rs. 3,36,500/-	D/- Bohli Revenue Estate, Sithana (Bohli), Tehsil- Madlauda, District: Panipat – 132140	Mr. Rajiv Kumar Contact No.7206709290	
			Rs. 10,000/-	Haryana. Measuring 386.47 Sq. Meters. The property is in the name of Shri Ram .		
5.	with furth	with further interest at contractual rates	Rs.10,55,000/-	Residential Property bearing Flat No. 210-C, 3rd Floor, "Kamna Apartment" Block V,	Ghaziabad Branch	
			Rs.1,05,500/-	s.1,05,500/- Vaishali, District: Ghaziabad – 201019, Uttar Pradesh. Measuring 28.56 Sq. meters. T	Mr. Prasanna	
		& rests, charges etc till date of payment		property is In the name of Mrs. Kavita Sonak	Contact No.7720089535	
	M/s Shri Brajwasi	04.05.2022 Rs.53,22,841.76	Rs.67,44,000/-	Residential Property at part of plot 58, Water tax No 197/A-58 Old & 197/A 58 New	Mathura Branch Mr. Hemant Jatav	
		with further interest at contractual rates	Rs.6,74,400/-	Sector – A, Govind Nagar, Mathura – 281004, Uttar Pradesh Measured as 157.94 Sqm.		
	& rests, charges etc till date of paymen		Rs. 10,000/-	Boundaries- East – Service lane 10 Ft. Wide West – House of Pramod Kumar Sharma North – Road 10 Feet Wide South - Property Of Ashok Washwani The property in the name of Mr. Raju Garg & Mrs. Ganga Devi	Contact- 9039763882	

Date and Time of Inspection of Property- 07.11.2022 to 05.12.2022, 10.00 AM to 4:00 PM, Date and Time of E-auction - 07.12.2022 from 11:00 AM to 01:00 PM.

- 1. The properties will be sold by e-auction through the Bank's approved service provider portal https://ibapi.in under the supervision of the Authorized Officer of the Bank.
- 2. E-auction bid document containing online e-auction bid form, declaration, general terms and conditions of online auction sale are available in https://ibapi.in 3. Intending bidders shall hold a valid digital signature certificate and email address and should register their name / account by login to the website of the aforesaid service provider. They will be provided with user id and
- password by the aforesaid service provider which should be used in the e-auction proceedings. For details with regard to digital signature, please contact the service provider portal https://ibapi.in. 4. Bids in the prescribed formats shall be submitted "online" through the portal https://ibapi.in along with the detail of EMD & scanned copy of KYC documents including photo, PAN Card & address proof to the service
- provider and to the Authorised Officer before 05.00 P.M on 06.12.2022 otherwise shall not be eligible for consideration. 5. The EMD and other deposits shall be remitted through EFT / NEFT / RTGS to the Bank account as specified above and the amount of EMD paid by the interested bidder shall carry no interest. The amount of EMD paid by
- not later than the next working day. The balance amount of sale price shall be paid within 15 days from the date of confirmation of auction sale. Failure to remit the entire amount of sale price within the stipulated period will result in forfeiture of deposit of 25% of the bid price to the secured creditor and forfeiture of all claims over the property by the purchaser and the property will be resold.
- 9. The sale certificate will be issued in the name of the purchaser only, after payment of the entire sale price amount and other taxes/charges, if any, 10. The purchaser shall bear the charges/fee payable for conveyance such as registration fee, stamp duty, etc., as applicable as per law. 11. The Authorized Officer has the absolute right to accept or reject any bid or postpone or cancel the sale, as the case may be without assigning any reason whatsoever.
- 12. The property is being sold on "As is Where is", "As is what is", and "Whatever there is "basis. The Bank has disclosed only the known encumbrances, statutory liabilities, if any, as above. However, the intending bidders should make their own independent inquiries at their own costs with concerned co-operative housing societies/SRO as well as the Revenue Records regarding the title, nature, description, condition, encumbrance, lien, charge, statutory dues, etc of properties put on auction and claims/rights/dues affecting to the properties, prior to submitting their bid. The properties are being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorized Officer/Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues.
- Sale is subject to confirmation by the secured creditor. 14. EMD of unsuccessful bidders will be returned through EFT / NEFT / RTGS to the bank account details provided by them in the bid form and intimated via their e-mail id.

the successful bidder shall be adjusted towards the sale price.

6. Bids without EMD shall be rejected summarily.

15. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on Indian Overseas Bank's website i.e. www.iob.in [https://www.iob.in/TenderDetails.aspx?Tendertype=E_Auction] or https://ibapi.in Authorised Officer, Indian Overseas Bank Date:04.11.2022

New Delhi

7. Online auction sale will start automatically on and at the time as mentioned above. Auction / bidding will initially be for a period of 120 minutes with auto extension time of 10 minutes each till the sale is concluded. 8. The property shall be sold to the successful bidder. The successful bidder (purchaser) as declared by the Authorised Officer shall deposit 25% of the sale price (inclusive of the EMD) immediately on the same day and

SELAN EXPLORATION TECHNOLOGY LTD. SELAN CIN: L74899DL1985PLC021445

> Regd. Office: J-47/1, Shyam Vihar, Dindarpur, Najafgarh, New Delhi-110 043 E-mail: investors@selanoil.com; Tele Fax No.: 0124- 4200326

Website: www.selanoil.com Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th September, 2022

PARTICULARS (₹ in Lakhs)	Quarter Ended Sep 30, 2022 (Unaudited)	Quarter Ended Sep 30, 2021 (Unaudited)	Six Months Ended Sep 30, 2022 (Unaudited)	Six Months Ended Sep 30, 2021 (Unaudited)
Total Income from Operations (net)	3,263	1,824	6,275	3,450
2. Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	881	214	1,789	381
3. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	881	214	1,789	381
4. Total Comprehensive Income (after tax)	857	209	1,767	377
5. Equity Share Capital (face value ₹ 10/-)	1,520	1,520	1,520	1,520
6. Earnings Per Share (before & after extraordinary items) of ₹ 10/- each Basic : Diluted :	5.80 5.80	1.41 1.41	11.77 11.77	2.51 2.51

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the stock exchange website: www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website: www.selanoil.com.

for SELAN EXPLORATION TECHNOLOGY LTD.

www.selanoil.com

Suniti Kumar Bhat Chairman DIN: 08237399

CAPITAL

Date: 04 November, 2022

Place: Gurgaon

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात–362266 शाखा कार्यालय : प्रथम तल, विजया भवन, भूखंड सं. 17, बाराखंमा मार्ग, नई दिल्ली 110001

धारा 13 (2) के अतर्गत मांग सूचना आप निम्न वर्णित ऋणकर्ता ने अनुसूची अंतर्गत वर्णित संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया है और आप निम्न वर्णित व्यक्ति ऋणानबंध के दि

ऋणकर्ता / सह—ऋणकर्ता एवं गारंटर के रूप में खड़े हुए हैं। आपके द्वारा की गई चूकों के परिणामस्वरूप, निम्न वर्णित आपके ऋण खाता को वित्तीर परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (संक्षेप में सरफॉएसि अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत एनपी के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हम, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ने आपके द्वारा प्रस्तुत पते पर, संशोधितानुसार प्रतिभृति हित (प्रवर्तन नियमावली 2002 के साथ पिटत धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना निर्गत की थी। उक्त सूचनाओं की विषयवस्तु यही है कि आप, आपको स्वीकृत विभिन्न ऋणों के भुगतान में चूक कर चुके थे। अतः, यह वर्तमान प्रकाशन जो है वह सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधान के रूप में तथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निमयावली 2002 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार आप तक सूचना प्रसारण हेतु प्रकाशित किया गया है।

	ऋण खाता संख्या/	्रप्रवातत का जान्.	माग सूचना का	। माग सूचना
	खाता, ऋणकर्ता(ओं) एवं	ेवाली प्रतिभूति के	तिथि /	के अनुसार देयराशि
	गारंटर(रों) का नाम तथा पता	विवरण	एनपीए तिथि	
	प्रोडक्ट – संपत्ति के समक्ष ऋण	संपत्ति	27.10.2022	₹. 3,64,30,620 / -
-	ऋण खाता संख्याः 80001730, 80003345, MINACS0288101	''जी–46,	27.10.2022	(रुपये तीन करोड़
-	1. क्रॉसवेज वर्टिकल सोल्यूशन्स प्रा. लि., निदेशक के माध्यम से, चतुर्थ तल, 411,	तहतल एवं	एनपीए	चौंसट लाख तीस
-	एस्सेल हाउस, आसफे अली मार्ग, तुर्कमान गेट के निकट, मध्य		02.09.2022	हजार छह सौ बीस
-	दिल्ली—110002	ँनगर ।।।,		मात्र), बकाया मूलधन,
1	यहां पर भी : जी—46, तहतल एवं भूतल, लाजपत नगर ।।।, नई दिल्ली—110024	नई दिल्ली–		बकायों (प्रोद्भूतकृत
1	2 श्री सुनील कुमार गुप्ता,	110024'' के		विलंब शुल्कों एवं ब्याज
-	फ्लैंट सं. 60 डी, पॉकेट ए, एस्कोर्ट हॉस्पिटल के निकट, सुखदेव विहार,	समस्त वह भाग		सहित) (टीडीएस को
1	नई दिल्ली—110025	तथा अंश		छोड़कर) के माध्यम से
-	यहां पर भी : जी-46, तहतल एवं भूतल, लाजपत नगर ।।।,			दिनांक 10.10.22 तक
-	नई दिल्ली—110024			और किसी ब्याज एवं दांडिक ब्याज, टीडीएस
-	3. श्रीमती प्रीति गुप्ता,			तथा / अथवा अन्य
-	फ्लैट सं. 60 डी, पॉकेट ए, एस्कोर्ट हॉस्पिटल के निकट, सुखदेव विहार,			शुल्कों के साथ जो कि
-	नई दिल्ली—110025			बकाया राशि के पूर्ण
- 1	यहां पर भी : जी-46, तहतल एवं भूतल, लाजपत नगर ।।।, नई दिल्ली-110024			भुगतान होने तक उस
	4. श्री नीरज कुमार अग्रवाल,			यानी बकायाराशि पर
	मकान सं. ३, गली सं. १, ब्रह्मपुरी, फफराना मार्ग, मोदी नगर, गाजियाबाद,			नियत होता है
1	यूपी—201204			
1	यहां पर भी : जी–48, तहतल एवं भूतल, लाजपत नगर ।।।, नई दिल्ली–110024			
- 1	in it is in an addition to the interior			

आपको एतदद्वारा आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड को उक्त मांग सचना की तिथि से 60 दिवसों की अवधि के अंदर ब्याज एवं लागत के साथ उपर्यक्त राशि क भगतान करने का निर्देश दिया जाता है। भगतान करने में विफल रहने पर आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड समस्त अथवा किसी एक अथवा एकाधिक प्रतिभृत विसंपत्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य कार्रवाई करेगी. जिस कार्रवाई में ऋणकर्ताओं, बंधककर्ताओं और गारंटरों की प्रतिभत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना सम्मिलित होगा। उक्त अधिनियम के अंतर्गत आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के पास उपलब्ध शक्ति में निम्नलिखित शक्तिय सम्मिलित हैं— (1) प्रतिभत परिसंपत्तियों को छडवाने के लिए विक्रय के समनदेशन, पटटा के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकारों सहित ऋणकर्ताओं / गारंटरों की प्रतिभुत परिसंपत्तियों पर अधिग्रहण करने की शक्ति, (2) पटटा, समनुदेशन के माध्यम से अथवा विक्रय द्वारा हस्तांतरण करने के अधिकारों सहित प्रतिभृत परिसंपत्तिय का प्रबंधन हाथ में लेना और प्रतिभूत परिसंपत्तियों को प्राप्त करना तथा आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा किया जानेवाला प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कोई भी

हस्तांतरण, समस्त अधिकारों एवं हस्तांतरित प्रतिभृत परिसंपत्तियों के संबंध में निहित होगा क्योंकि यह हस्तांतरण आपके द्वारा किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार, आपको एतदद्वारा उपरोक्त संदर्भित तथा आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के पास दृष्टिबंधककृत ∕ बंधककृत किसी भी प्रतिभुत परिसंपत्ति को, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व सहमति के बिना, विक्रय या पटटा के माध्यम से अथवा अन्यथा (आपके व्यवसाय

सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त) हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है स्थानः दिल्ली/राराक्षे

प्राधिकत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकः 05.11.2022 आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड

बिक्री उद्घोषणा तिथि: 04.10.2022

कार्यालय वसूली अधिकारी-1 ऋण वसूली अधिकरण-11, दिल्ली आर.सी. सं. 298/2018

बिक्री सुचना

र्ड-नीलामी

दिनांक : 29.09.2022

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स डायमंड प्लास्टिक्स मेरे आदेश दिनांक 29.09.2022 के अनुसार कथित वसुली प्रमाणपत्र पर 07.12.2022 को सार्वजनिक ई-नीलामी बिक्री द्वारा अधीलिखित सम्पत्ति की

यह नीलामी बिक्री वेबसाईट : https://support@bankeaction.com पर ''ऑन लाईन ई-नीलामी'' होगी।

नीलामी की तिथि एवं समय : 07.12.2022 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. (12 बजे अप. के बाद यदि जरूरी हुआ, 5 मिनट की अविध के विस्तार के साथ)

सम्पत्ति का विवरण

	लॉट नं.		आरक्षित मूल्य	ईएमडी
	1.	सं. 1/4425, प्लॉट नं. 125, खसरा नं. 550 में से, खेवट सं. 406, ग्राम-सिकदरपुर, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली-110032	62,42,000/-	6,24,000/-
L				
	2.	संयन्त्र तथा मशीनरी	30,00,000/-	3,00,000/-
п	_			

नीलामी बिक्री वेबसाइट पोर्टल https://support@bankeaction.com के माध्यम से ''ऑनलाइन ई-नीलामी'' द्वारा की जायेगी।

2. ज.ध.रा. ''वसूली अधिकारी-क, डीआरटी-II, दिल्ली-खाता सं. आर.सी. सं. 298/2018'' के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा या निम्नलिखित खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा की जानी है-बैंक ऑफ इंडिया, एसेट रिकवरी शाखा, एच-2, स्टार हाउस, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, आईएफएससी कोड BKID0006102। स्वसत्यापित पहचान प्रमाण-पत्र की प्रति (मतदाता पहचान-पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) सहित ज.ध.रा. के रूप में कथित डिमाण्ड जिसमें भावी सम्पर्क के लिए पता हो तथा पैन कार्ड की स्वसत्यापित प्रति, और कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति या कम्पनी के प्रतिनिधि/एटॉर्नी की पुष्टि करने वाला कोई अन्य दस्तावेज अधिकतम 05.12.2022 को 4.00 बजे अपराहन से पूर्व तक वसुली अधिकारी-क ऋण वसुली अधिकरण-क्क्न दिल्ली के पास पहुँच जाने चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त हुए ज.ध.रा. अथवा ज.ध.रा. के मूल प्रमाण पर विचार नहीं किया जायेगा।

भेजने वाले के विवरण अर्थात पता, ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर आदि सहित एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ज.ध.रा. अथवा ज.ध.रा.

के भुगतान के मुल प्रमाण वाले लिफाफे पर ''आरसी सं. 298/2018'' लिखा जाना चाहिए। सम्पत्ति का विक्रय ''जो है जैसे है'' तथा ''जो है यही है''आधार पर किया जा रहा है।

संविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी संविदाएँ जमा करने तथा ई-नीलामी विक्रय की कार्यवाहियों में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://support@bankeaction.com अवश्य देखें तथा/अथवा श्री संजय प्रसाद, मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, मोबाइल नं. : 6261114512, ई-मेल : assetrecovery.newdelhi@bankofindia.co.in पर सम्पर्क करें।

सम्भावित संविदाकारों को पहले ही पोर्टल के साथ स्वयं को पंजीकृत करना तथा मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा.लि., गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग सं.

301, उद्योग विहार, फेज-क्क्र गुरुग्राम122015, सम्पर्क : 91-124-4302020/21/22/23 ई-मेल : www.bankeauctions.com, सम्पर्क व्यक्ति : श्री विनोद चौहान, मोबाइल नं. 981388793 से लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अपेक्षित है जो कि उपर्युक्त ई-नीलामी के लिए इच्छुक संविदाकार ईएमडी जमा करने के पश्चात मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा.लि., गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग सं. 301, उद्योग विहार, फेज-II, गुरुग्राम122015, सम्पर्क : 91-124-4302020/21/22/23 ई-मेल : www.bankeauctions.com, सम्पर्क व्यक्ति : श्री विनोद चौहान, मोबाइल

नं. 981388793 से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। सम्भावित संविदाकार साइट का निरीक्षण 23.11.2022 तथा 24.11.2022 को 10.30 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक कर सकते हैं।

9. जिन संविदाकारों के पास वैध यूजर आईडी एवं पासवर्ड तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ज.ध.रा. का सुनिश्चित भगतान होगा केवल वे ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

10. इच्छुक संविदाकार जिन्होंने 05.12.2022 को 4.00 बजे अप. तक आरक्षित मूल्य से अधिक पर अपनी संविदाएँ कार्यालय वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली में प्रस्तुत की हैं वे 07.12.2022 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने

के पात्र होंगे। यदि संविदा नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही 5 मिनट विस्तारित हो 11. संविदाकार लॉट नं. 1 पर रखी सम्पत्ति के लिए रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) तथा लॉट नं. 2 पर रखी सम्पत्ति के लिए रु. 50,000/-

(रुपये पचास हजार मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ायेंगे। 12. असफल संविदाकार अपनी ज.ध.रा. सीधे वसली अधिकारी-ा, ऋण वसली अधिकरण-II, दिल्ली/सीएच अर्थात बैंक ऑफ इंडिया से ई-नीलामी विक्रय

बन्द होने के तुरन्त बाद ले सकेंगे। 13. सफल/उच्चतम संविदाकारों को संविदा/विक्रय राशि के 25% हेतु कार्यालय वसूली अधिकारी-I, दिल्ली-खाता आर.सी. सं. 298/2018 के पक्ष में अगले

कार्यकारी दिवस अर्थात 4.00 बजे अप. तक इस अधिकरण के पास जमा करेना होगा।

14. सफल/उच्चतम संविदाकार वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के समक्ष विक्रय प्रक्रिया की शेष 75% राशि वसूली अधिकारी-क डीआरटी-II,

दिल्ली-खाता आर.सी. सं. 298/2018 के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से सम्पत्ति की नीलामी की तिथि के 15वें दिन या इससे पूर्व, ऐसे दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है तो 15वें दिन के पश्चात प्रथम कार्यालयी दिवस पर रु. 1,000 तक 2% की दर से तथा इस राशि के रु. 1000/- से अधिक होने पर 1% की दर से पाउण्डेज शुल्क सहित रजिस्ट्रार, ऋण वसुली अधिकरण-।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करेगा। (75% की शेष राशि डाक द्वारा जमा करने के मामले में यह उपर्युक्त के अनुसार वसुली अधिकारी के पास पहुँच जानी चाहिए)।

15. सफल/उच्चतम बोलीदाता को इस फोरम के समक्ष जमा की जाने वाली प्रस्तावित नीलामी राशि पर लागु टीडीएस का भगतान करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 194-1ए के प्रावधानों का पालन करने की स्वतंत्रता होगी। ऐसी स्थिति में सफल/उच्चतम बोलीदाता को शेष बिक्री आय का भगतान करते समय इस फोरम के समक्ष उक्त राशि जमा करने का प्रमाण प्रस्तत करना होगा।

16. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में असफल रहने पर विक्रय की पुनः घोषणा के पश्चात सम्पत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी। यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझता है तो विक्रय के व्यय को घटाने के पश्चात जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी और चुककर्ता क्रेता सम्पत्ति अथवा बाद में विक्रीत सम्पत्ति के लिए प्राप्त राशि के किसी अंश पर सभी दावे से वंचित रहेगा।

17. अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए किसी भी समय सभी संविदाओं को स्वीकार करने अथवा नीलामी को स्वीकार्य नहीं पाता है तो उसे निरस्त करने या विलम्बित करने का अधिकार रखता है और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा।

सम्पत्ति की अनुसूची बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति अथवा इसके दावे, यदि कोई हों, जिसे उस ऋणभार का किसी भाग पर ट सम्पत्ति पर किया गया है. विवरण जो सम्पत्ति पर

सं. आकलित राजस्व तथा इसकी प्रकृति और मुल्य बकाया है पर कोई अन्य ज्ञात विवरण सं. 1/4425, प्लॉट नं. 125, खसरा नं. 550 में से, अज्ञात अज्ञात खेवट सं. 406, ग्राम-सिकदरपुर, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली-110032 संयंत्र तथा मशीनरी संयंत्र तथा मशीनरी अज्ञात (उत्तम नेगी)

रिकवरी अधिकारी-।, डीआरटी-।।, दिल्ली

DIN: 00216016

एनसीएलटी 2016 के विनियमों के नियम 38 के तहत प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से नोटिस, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश V नियम 20 के साथ

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ

हजुरा सिंह भीम सिंह

बैस्ट फूड्स लिमिटेड

सी.पी. (आईबी) नंबर 117/CHD/CHD/2017 में

2022 का आई.ए. नंबर 1213

मैसर्स बेस्ट फुड्स लिमिटेड के परिसमापक श्री विक्रम बजाज ने दिवाला और

दियालियापन संहिता, 2016 की धारा 60 (5) (सी) के तहत एक आवेदन 2022

की आईए संख्या 1213 दायर किया है. जिसमें नियम 11 के साथ पठित

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ ने सीपी (आईबी) संख्या

117 / सीएचडी / सीएचडी / 2017 में 2022 के आईए नंबर 1213 में प्रतिवाद

पर नोटिस जारी किया था। माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ

पीठ ने दिनांक 22.09.2022 के आदेश के तहत अधोहस्ताक्षरी को प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से सीपी (आईबी) संख्या 117 / सीएचडी / सीएचडी / 2017 में

2022 के आईए नंबर 1213 में आपको पताकर्ता यानी प्रतिवादी की सेवा करने की

ध्यान दें कि उपर्युक्त मामले को अब माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण,

चंडीगढ़ पीठ के समक्ष 17.11.2022 को सूचीबद्ध किया जाएगा । माननीय पीठ ने

आपको अपना उत्तर 2022 का आई.ए. को नंबर 1213 में दाखिल करने का निर्देश दिया है। सेवा की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर आपको यक्तिगत रूप से या अपने

अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई की अगली तारीख यानी

17.11.2022 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के

ध्यान दें कि, उक्त बताए गए दिन पर आपकी उपरिथति के डिफॉल्ट में, आवेदन

की

गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज है। जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। उम्रः

4 साल, **लिंगः** महिला, **कदः 2.5** फुट, **रंगः** गेहुँआ, **पहनावाः** गहरे लाल रंग की

टी–शर्ट और काले व सफेद रंग का धारीदार प्लॉजो पहने है। पुलिस के भरसक

प्रयास के बावजूद अभी तक इस गुमशुदा लड़की का कोई पता नहीं चल पाया

है। किसी व्यक्ति के पास इस गुमशुदा लड़की के बारे में कोई जानकारी हो तो

आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार एलसीआरडी नई दिल्ली डिविजन, बू.जी.एफ., फेडरल टॉवर्स, 2/2 वेस्ट पटेल नगर, पटेल रोड, नई दिल्ली-110008 फोन नं. 011-40733978, 40733980 ई-मेल: ndllcrd@federalbank.co.in CIN: L65191KL1931PLC000368 वेबसाईट: www.federalbank.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबिक, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम

2002 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत अधोहस्ताक्षरी फेडरल बैंक लिमि. के

अधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (इसके बाद नियम

के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग कर दिनांक 30.05.2022 को मांग नोटिस जारी किया गया जिसमें उधारकर्ताः

1. श्री रजनीश पाल शर्मा पुत्र श्री जोगिंदर पाल 2. श्रीमती नवजोत शर्मा पत्नी श्री रजनीश पाल

शर्मा, दोनों का निवास :1-डी, हुमायूंपुर गांव, सफदरजंग एन्क्लेव, दक्षिण पश्चिम दिल्ली,

दिल्ली-110029, यहाँ भीः एलआईजी फ्लैट नंबर 623,तृतीय तल, ग्रुप-2, पॉकेट-1, सेक्टर-14,

द्वारका आवासीय योजना, द्वारका, फेज-II, नई दिल्ली को नोटिस में उल्लिखित राशि आपके

आवास ऋण खाते 15967300004085 के अंतर्गत 30.05.2022 के अनुसार रु. 29,84,858/- (रु. उनतीस लाख चौरासी हजार आठ सौ अठ्ठावन मात्र) संयुक्त रूप से और अलग–अलग बकाया, आपके एसेट गार्ड ऋण खाते 15967600001252 के तहत 30.05.2022 के अनुसार रु.1,63,210 / -

(रु.एक लाख तिरसठ हजार दो सौ दस मात्र) संयुक्त रूप से और अलग–अलग बकाया, आपके

होम प्लस टॉप अप् ऋण खाते 15967600001302 के तहत 30.05.2022 के अनुसार रु.

3,04,935 / – (तीन लाख चार हजार नौ सौ पैंतीस रुपये) संयुक्त रूप से और अलग–अलग

बकाया है अर्थात बैंक की एनडीएल पश्चिम विहार शाखा के साथ आपके ऋण खातों के तहत

30.05.2022 के अनुसार संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से आपके द्वारा देय कुल रु.

34,53,003 / – एवं ब्याज, लागत और अन्य शुल्क को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60

उधारकर्ता राशि का भूगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा

नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम

की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर

प्रतिभूति परिसंपत्तियों (सुरक्षित सम्पत्तियों) को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के

साथ कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन करने पर फेडरल बैंक

लिमि. को एफएचएस 15967300004085 में रु 31,11,718 / – (रु. इकतीस लाख ग्यारह हजार

सात सौ अठारह मात्र) की राशि के लिए, एसेट गार्ड ऋण खाता 15967600001252 में रु.

1,69,727 / – (रु. एक लाख उनहत्तर हजार सात सौ सत्ताईस मात्र), होम प्लस टॉप अप ऋण

खाते 15967600001302 में रु.३,19,478 / – (रु. तीन लाख उन्नीस हजार चार सौ अठहत्तर मात्र)

यानि 04.11.2022 के अनुसार कुल रु. 36,00,923 / – एवं लागत, शुल्क और उस पर ब्याज के

अचल संपत्ति का विवरण

ग्रुप–2, पॉकेट–1, सेक्टर–14, द्वारका आवासीय योजना, द्वारका, फेज– II, नई दिल्ली में स्थित

42 वर्ग मीटर मापक्षेत्र में तीसरी मंजिल पर डीडीए निर्मित फ्री होल्ड आवासीय एलआईजी

फ्लैट नं. 623 के सभी ट्रकड़ा और अंश। चौहद्दी : उत्तर में अन्य, दक्षिण में प्रवेश, पूर्व में

खुले, पश्चिम में खुला / फ्लैट नंबर 624 (अधिक विवरण एसआरओ, सब डिवीजन प्बी,

JAI MATA GLASS LIMITED

CIN: L26101HP1981PLC004430

Regd. Office: TIPRA, BAROTIWALA, DISTRICT, SOLAN (H.P.)-174 103

Statement of Unaudited Financial Results for the guarter and half year ended September 30, 2022

Qtr. ending/

current year

30.09.2022

22.62

2.90

2.17

8.01

1,000.00

281.67

0.00

0.00

The financial results of the Company have been prepared in accordance with the principles and

procedures of Indian Accounting Standards ("Ind AS") as notified under the Companies (Ind AS)

The financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2022

are available at the Company's website, www.jaimataglass.com and Bombay Stock Exchange

3 The Board of the Company is exploring and evaluating various business opportunities

The above results for the guarter and half year ended 30.09.2022 were reviewed by the Audit

Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 4

2022. The unaudited results for the current quarter and the half year have been subjected to limited review by the statutory auditor of the company. The review report of the Statutory auditor

The figures for the previous period have been regrouped / rearranged, wherever necessary, to

Accordingly, the accounts of the Company have been prepared on a going concern basis.

Rules, 2015, as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.

is being filed with BSE Limited Stock Exchange of India.

confirm to the current period's classification.

सरफेसी अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी

Corresponding

Qtr. for the

previous

year ended

30.09.2021

23.88

(21.78)

(21.78)

(21.78)

(21.83)

1.000.00

306.70

(0.02)

(0.02)

(दि फेडरेल बैंक लि.)

Previous

year ended

31.03.2022

78.25

(9.14)

(9.14)

(9.14)

(4.31)

1,000.00

273.66

(0.01)

(0.01)

By Order of the Board

C.M Marwah

DIN: 00172818

Managing Director

For Jai Mata Glass Limited

दिल्ली में पंजीकृत सेल डीड नं. 2024 दिनांक 31.01.2020 के तहत वर्णित है)।

की धारा 13 (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विक्रम बजाज

थानाध्यक्ष

थानाः इंदरपरी, दिल्ली

फोन नः 011- 25832201, 8750871123

तलाश

मैसर्स बैस्ट फुड्स लिमिटेड के लिए परिसमापक

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक

लड़की जिसका नामः दिव्या, पुत्रीः नामालूम, पताः

नामालूम, जोकि दिनांक 12.09.2022 को महाराजा अग्रसेन

पार्क, इंदरपुरी, दिल्ली थाना इंदरपुरी, दिल्ली क्षेत्र से

गुमशुदा हैं। इस संदर्भ में FIR No. 372/22 dated

12.09.2022 के तहत थाना इंदरपुरी, दिल्ली में

पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00003/2016-2017/10003

आपकी अनुपरिधति में सुना और निर्धारित कर दिया जाएगा ।

सी—16, विद्युत सदन, सैक्टर—6, पंचकुला, हरियाणा — 134109

सेवा में,

अनुमति दी है।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम

समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है।

गुमशुदा

कृप्या निम्नलिखित पर सुचित करें।

फोनः 011-24368638, 24368641

दिनों के भीतर भूगतान करने के लिए कहा है।

04 नवम्बर 2022 को कब्जा कर लिया है।

प्रभार के अधीन होगा

दिनांकः 04.11.2022

Particulars

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,

Exceptional and/or Extraordinary items#)

Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items#)

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after

Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period

(after tax) and Other Comprehensive Income

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt

Earnings Per Share (of Re. 1 /- each)

Capital Redemption Reserve

5 Debenture Redemption Reserve

6 Debt Service Coverage Ratio

17 Interest Service Coverage Ratio

website, www.bseindia.com.

Dated : November 4, 2022

Place : New Delhi

Outstanding Redeemable Preference Shares

(for continuing and discontinued operations):

Paid up Equity Share Capital

Securities Premium Account

Exceptional and/or Extraordinary items#)

स्थानः नई दिल्ली

Total Income

(after tax)]

Net worth

Notes:

Debt Equity Ratio

वेबसाइट: http//cbi.nic.in ई–मेल - cic@cbi.gov.in

फैक्स नं 011-24368639

DP/2477/WD/2022

एनसीएलटी नियम, 2016 में उचित निर्देश मांगे गए हैं।

श्री अमरनाथ फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 4883_4884, दूसरी मंजिल, मेन रोड, कूचा उस्ताद डाग, चांदनी चौक, दिल्ली-110006 फोन नंबर: 011-23953204 ईमेल: amarnath01finance@gmail.com | CIN No. L74899DL1985PLC020194 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाख में) ईपीएस को छोडकर समाप्त तिमाही समाप्त छमाही समाप्त वर्ष क्रम सं. विवरण 30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022 (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अनअकेक्षित) (अकेक्षित) संचालन से कुल आय (शुद्ध) 120.47 121.75 100.22 242.22 217.14 453.20 अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, असाधारण 63.87 161.66 79.87 81.79 145.88 311.93 और/या असामान्य मदों से पूर्व कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण और/या असामान्य मदी के बाद) 79.87 81.79 63.87 161.66 145.88 311.93 4 सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) कर के बाद 62.60 63.62 126.22 113.85 230.81 5 कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) 62.60 63.62 50.02 126.22 113.85 230.81 (असाधारण और/या असामान्य मर्दी के बाद) अवधि के लिए कल व्यापक आय (इस अवधि के लिए 62.60 63.62 50.02 126.22 113.85 230.81 लाभ/हानि (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल है। इक्रिटी शेयर पंज 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 998.00 रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर पिछले वर्ष की 5,764.75 बैलेंस शीट में दिखाए गए अनुसार) प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10 रुपये का अंकित मृत्य) निरंतर और अनिरंतर संचालन के लिए) बेसिक (वार्षिक नहीं) 0.63 1.14 1.14 0.64 0.50 1.26 2.31 डाल्युटेड (वार्षिक नहीं)* 0.63 0.64 0.50 2.31

नोट्सः-उपरोक्त परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 04 नवम्बर, 2022 को आयोजित बैठक मे उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट यानी www.bseindia.com और

कंपनी की वेबसाइंट www.sriamarnathfinance.in पर उपलब्ध है। कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार परिणामों की सीमित समीक्षा

श्री अमरनाथ फाइनेंस लिमिटेड के लिए राकेश कपूर प्रवध संचालक

दिनांक: 04.11.2022 स्थान : दिल्ली

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कपाउंड, वेरावल, गुजरात-362266

शाखा कार्यालय: प्रथम तल, विजया भवन, भूखंड सं, 17, बाराखंभा मार्ग, नई दिल्ली 110001 धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप निम्न वर्णित ऋणकर्ता ने अनुसूची अंतर्गत वर्णित संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया है और आप निम्न वर्णित व्यक्ति ऋणानुबंध के लिए ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता एवं गारंटर के रूप में खड़े हुए हैं। आपके द्वारा की गई चुकों के परिणामस्वरूप, निम्न वर्णित आपके ऋण खाता को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (संक्षेप में सरफॉएसि अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हम, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ने आपके द्वारा प्रस्तुत पते पर, संशोधितानुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना निर्गत की थी। उक्त सूचनाओं की विषयवस्तु यही है कि आए आएको स्वीकृत विभिन्न ऋणों के भुगतान में चूक कर चुके थे। अतः, यह वर्तमान प्रकाशन जो है यह सरफोएसि अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधान के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) निमयावली 2002 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार आप तक सुबना प्रसारण हेत् प्रकाशित किया गया है।

ऋण खाता संख्या / खाता, ऋणकर्ता(ऑ) एवं गारंटर(रॉ) का नाम तथा पता	प्रवर्तित की जानेवाली प्रतिभूति के विवरण	मांग सूचना की तिथि/ एनपीए तिथि	मांग सूचना के अनुसार देवराशि
प्रोडक्ट — संपत्ति के समझ ऋण ऋण खाता संख्याः ABFLPNTLAP0000061954 एवं ABFLPNTLA0000104253 1. श्री औम सिंह, पुत्र श्री रतन सिंह, जलालपुर—1, जलालपुर, पानीपत, हरियाणा—132103 खहां पर भी: भूमि खेबट सं. 790 एवं 791 पर मकान, खतीनी सं. 992 एवं 993, खसरा सं. 18/19/2(2—0), 20(8—0), 21(7—18). 22(7—8), 30/1(2—6) वाका ग्राम, उगरा खेड़ी, एम.सी. सीमाओं के अंदर, पानीपत—132103 2. श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री ओम सिंह जलालपुर—1, जलालपुर, पानीपत, हरियाणा—132103 3. मैसर्स सुपर स्टार इंडस्ट्रीज, स्वामी के माध्यम से, गती सं. 3, मूलचंद नगर, उगरा खेड़ी, पानीपत—132103	"मूमि खेवट सं. 790 एवं 791 पर भवन, खतीनी सं. 992 एवं 993, खसरा सं. 18/19/2(2-0), 20(8-0), 21(7-18), 22(7-8), 30/1(2-6) वाका ग्राम, उगरा खेडी, एम.सी. सीमाआके अंवर, पानीपत-132103" के समस्त वह भाग तथा अंश	20.10.2022 एनपीए 15.08.2022	रु. 33,39,789/— (रुपये तैंतीस लाख उनतालिस हजार सात सौ नवासी मात्र), बकाया मूलचन, बकायों (प्रोदमूतकृत विलंब शुल्कों) एवं ब्याज सहित के माध्यम से दिनांक 13.10.22 तक और किसी ब्याज एवं दांडिक ब्याज, टीडीएस तथा/अथवा अन्य मुल्कों के साथ जो कि बकाया सिश के पूर्ण भुगतान होने तक जस वानी बकायाराशि पर नियत होता है

एकाधिक प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य कार्रवाई करेगी, जिस कार्रवाई में ऋणकर्ताओं, बंधककर्ताओं और गारंटरों की प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना सम्मिलित होगा। उक्त अधिनियम के अंतर्गत आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेंड के पास चपलब्ध शक्ति में निम्नलिखित शक्तियां सम्मिलित हैं-- (1) प्रतिभृत परिसंपत्तियों को छडवाने के लिए विक्रय के समनुदेशन, पट्टा के माध्यम से हस्तांतरण हे अधिकारों सहित ऋणकर्ताओं / गारंटरों की प्रतिभृत परिसंपर्तियों पर अधिग्रहण करने की शक्ति, (2) पटटा, समनुदेशन के माध्यम से अथवा विक्रय द्वारा हस्तांतरण करने के अधिकारों सहित प्रतिभत परिसंपत्तियों का प्रबंधन हाथ में लेना और प्रतिभत परिसंपत्तियों को प्राप्त करना तथा आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा किया जानेवाला प्रतिभृत परिसंपत्तियों का कोई भी हस्तांतरण, समस्त अधिकारों एवं हस्तांतरित प्रतिभृत परिसंपत्तियों के संबंध में निहित होगा क्योंकि यह हस्तांतरण आपके द्वारा किया गया है। जक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार, आपको एतदहारा उपरोक्त संदर्भित तथा आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के पास

दृष्टिबंधककृत / बंधककृत किसी भी प्रतिभृत परिसंपत्ति की, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व सहमति के बिना, विक्रय या पटटा के माध्यम से अधवा अन्येथा (आपके व्यवसाय के सामान्य अनक्रम के अतिरिक्त) हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताबरित

विनांकः 05.11.2022

आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालयः रिक्वरी अधिकारी-1, ऋण वसूली अधिकरण-111, दिल्ली 4था तल, जीवनतारा भवन, पटेल चौक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बनाम बबीता एवं अन्य सीडी नं. 1. बबीता

निवासी: ए-62, एस-1, डीएलएफ कॉलोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.-201005 सीडी नं. 2. पंकज कुमार

निवासी : ए-62, एस-1, डीएलएफ कॉलोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.-201005

सीडी नं. 3. सुनील कुमार-जमानती

निवासी: ए-17, विश्वास पार्क, एक्सटेंशन, दिल्ली-59 जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसुली अधिकरण, दिल्ली द्वारा निर्गत ओए नं. 37/2017/डीआरटी-कक्क, दिल्ली दिनांक

15.02.2019 वसुली प्रमाणपत्र के संदर्भ में आपके द्वारा देय रु. 30.97,789/- (रुपये तीस लाख सत्तानबे हजार सात सौ नवासी मात्र) तथा ब्याज एवं लागतों का भूगतान करने में विफल रहे हैं। तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 14.12.2022 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा.लि., उद्योग विहार, फेज-2, बिल्डिंग सं. 301, गुरुग्राम, हरियाणा (भारत) दूरभाष : +91 7291981124/25/26 सम्पर्क व्यक्ति श्री विनोद चौहान, मोबाइल नं. 9813887931 ई-मेल : support@bankeauctions.com. वेबसाइट : Https://www.bankeauctions.com के माध्यम से ''ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली'' द्वारा की जायेगी। पूछताछ तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए इच्छुक संविदाकार श्री मानसी गोला, शाखा प्रबंधक, यूबीआई पीतमपुरा शाखा, मोबाइल

: 9910115715 ई-मेल : ubin0557838@unionbankofindia.com से सम्पर्क कर सकते हैं। यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित

हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही

संपत्ति को अर्जितकरने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्टशर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती,

त्रृटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. सम्पत्तियों, आरक्षित मुल्य तथा ईएमडी का विवरण इस प्रकार है:

S.No.	Property particulars	Reserve price/ EMD
1.	फ्लैट नं. जी-1, भूतल, एचआईजी फ्लैट सामने की ओर छत के अधिकार के बिना, प्लॉट नं. बी-1/44, डीएलएफ कॉलोनी, दिलशाद एक्सटेंशन-11, ग्राम- ब्रह्मपुर, परगना लोनी, तहसील जिला-गाजियाबाद, उ.प्र.	रु. 24,00,000/- (रुपये चौबीस लाख मात्र) ईएमडी : रु. 2,40,000/- (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र)
2. वह रा	शि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र) है। यदि बोली	राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई

विवाद उत्पन्न होता हैतो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा। 3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना

व्यवहारिक नहीं होताहै तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकते हैं। 4. ईएमडी का भुगतान 12.12.2022 तक रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा सीलबंद

लिफाफे में जमा किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा। 5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं, तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधानकी ओर से बोली कर रहे हों तो उदघोषणा जमा किया जायेगा। बाद के मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा

अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/ अटार्नी की पृष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी,वसली अधिकारी I. डीआरटी-III. दिल्ली के पास जमा 6. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भगतान करना होगा।

7. सफल क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के

बाद प्रथम बैंक कार्य दिवसमें ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-

III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-क्क्न डीआरटी-क्क्न्क दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना

8. संभावित बोलीदाता 08.12.2022 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। 9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा

चक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।

10. संपत्ति की बिक्री 'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है' आधार पर की जा रही है। 11. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

अधिभारों के विषय में अपना स्वयं का ड्यू डिलिजेन्स कर लें। 13. असफल बोलीदाताओं को अपनी ईएमडी की वापसी के लिए आरसी की सुनवाई की अगली अनुसूची तिथि पर या उससे पहले डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है, जिसे तदनुसार आरसी की सुनवाई की

अनुसूची/बाद की तारीख पर वापस किया जाएगा। 14, सीएच बैंक को यहाँ दिये गये विवरणों का सत्यापन तथा वैधता की जांच करने का निर्देश दिया जाता है।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर के साथ 4 अक्टूबर, 2022 को दिया गया।

(जय बर्धन)

वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली

12. इस समय अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में सम्पत्ति पर राजस्व/अधिभारों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। लेकिन, संभावित बोलीदाता को सलाह दी जाती हैिक ईएमडी जमा करने से पूर्व अपने स्वयं के हित में बिजली/पानी/मकान कर के बिलों के बकाये अथवा किसी अन्य